

जनगणना गोपनीयता



NORTH CAROLINA
ASIAN AMERICANS TOGETHER

www.ncaatogether.org/census

यह जनगणना यू.एस. में रहनेवाले सभी लोगों की गणना करती है।

- जनगणना इस बात को प्रभावित करती है कि आपके क्षेत्र में स्कूल, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए कितनी धन राशीप्राप्त की जा सकती है - आपके समुदाय में जितने अधिक लोगों की गणना होती है, उतना ही अधिक धन राशी आपके समुदाय को प्राप्त होगी।
- आप इस जनगणना में भाग ले कर, यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके परिवार और समुदाय को धन राशी, सेवाएं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का उचित हिस्सा मिले।

इस जनगणना में आपके घर में रहने वाले हर सदस्य के बारे में मूलसवाल, जैसे उम्र, नाम, जाति और जातीयता पूछे जाते हैं। 2020 की जनगणना में अप्रवासन या नागरिकता के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।

आपकी जनगणना के उत्तर पूरी तरह से गोपनीय हैं।

- ❖ अत्यंत मजबूत कानून आपकी जनगणना के दौरान दिए गए उत्तरों के गोपनीयता की रक्षा करते हैं।
- ❖ जनगणना ब्यूरो को आपकी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ भी साझा करने की अनुमति नहीं है चाहे वे आईसीडी, पुलिस, या कोई अन्य सरकारी एजेंसी क्यों न हो।
- ❖ जनगणना ब्यूरो केवल जनसंख्या के बारे में सामान्य जानकारी इकट्ठा करने के लिए आपके जवाबों का उपयोग कर सकता है, जैसे आपके शहर में कितने लोग रहते हैं, और उम्र, लिंग और नस्ल के बारे में आंकड़े इकट्ठा कर सकता है। जनगणना ब्यूरो आपकी व्यक्ति के रूप में दुसरो से जानकारी साझा नहीं कर सकता।

कानून की आवश्यकता के अनुसार सभी को जनगणना में पूछे गए प्रश्नों का पूरी तरह से और सच्चाई से जवाब देना जरूरी है। जनगणना में प्रश्नों का जवाब देने में झूठ मत बोलो। अगर आप एक या दो प्रश्न छोड़ते हैं, तब भी आपके फॉर्म को गिना जायेगा बशर्ते आप अपना नाम और पता बताते हैं। यदि आप प्रश्नों को छोड़ देते हैं या जनगणना का उत्तर बिल्कुल नहीं देते हैं, तो जनगणना ब्यूरो द्वारा आपको फोन करके या अपने घर पर जनगणना ब्यूरो कार्यकर्ता को भेजकर छोड़ी हुई जानकारी के बारे में पूछ सकता है। जितने कम सवाल आप छोड़ते हैं, कम संभावना है कि जनगणना ब्यूरो आपसे पूछताछ करेगा।

आप जनगणना के बारे में यहाँ www.countusin2020.org/resources अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।